

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 5, 1976/वीष 15, 1897

No. 10]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 5, 1976/PAUSA 15, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 1975

S.O. 16(E).—Whereas the Government of the State of Andhra Pradesh have intimated a few alterations in the name and extent of the territorial divisions in the State and inadvertent slip or omission in the description of certain assembly constituencies mentioned in Table B of the Delimitation Commission's Order No. 32 of 1 January, 1975, in respect of the State of Andhra Pradesh;

And whereas the Commission considers it necessary and expedient to make amendments in the description of those constituencies and correct the errors arising from inadvertent slip or omission so as to bring the Order correct and up-to-date;

Now therefore in exercise of the powers conferred by section 11 of the Delimitation Act, 1972, the Election Commission hereby makes the corrections in Table B of the said Order as follows:—

- (i) Under Column 2 against '22-Bhogapuram', in the description of the extent of the constituency for the existing entry, the entry "Bhogapuram, Konada, Kumili and Denkada firkas and Tagarapuvalasa firka (excluding villages 46-Tagarapuvalasa and 87-Sangivalasa) in Bheemunipatnam taluk," shall be substituted;
- (ii) Under column 2 against '23-Bheemunipatnam', in the description of the extent of the constituency for the existing entry, the entry

"Bheemunipatnam municipality including villages 46-Tagarapavalasa and 87-Sangivalasa of Tagarapavalasa firka and Bheemunipatnam, Anandapuram, Revidi and Korukonda firkas in Bheemunipatnam taluk; and Alamanda firka in Srungavarapukota taluk." shall be substituted;

- (iii) Under column 2 against '208-Sanathnagar', in the description of the extent of the constituency, for the words "Fatehnagar circle in Hyderabad urban taluk", the words "Fathenagar Town in Amirpet circle of Hyderabad urban taluk", shall be substituted;
- (iv) Under column 2 against '211-Secunderabad Cantonment (SC)', in the description of the extent of the constituency for the existing entry, the entry "Secunderabad Cantonment and Bowenpally Town and village 14-Ferozguda in Amirpet circle, and Macha Bolaram, Lalaguda and Malkajgiri towns and Tirumalgiri circle, in Hyderabad urban taluk." shall be substituted;
- (v) Under column 2 against '218-Charminar', in the description of the extent of the constituency for the existing entry, the entry "Wards 19 to 21 in Hyderabad division of Municipal Corporation of Hyderabad and the rural villages Attapur, Alisamandar, Bumrukunddola, Mailardevpally, Pallicheru, Lakshmiguda and Balapur in Bahadurpura circle, in Hyderabad urban taluk" shall be substituted;
- (vi) Under column 2 against '262-Jangaon', in the description of the extent of the constituency, for "148-Goolapally" read "148-Gollapally";
- (vii) Under column 2 against "267-Wardhannapet", in the description of the extent of the constituency, for "154-Singanampalli (Vidyanagar)" read "154-Singaram Patli Vidyanagar"; and
- (viii) In the Note at the end of the Order, for the words and figures "1st day of January, 1975", the words and figures "1st day of August, 1975", shall be substituted.

[No. 282/1/AP/75]

By Order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1975

का० आ० 16(अ).—प्रान्ध प्रदेश राज्य सरकार ने, प्रान्ध प्रदेश राज्य के प्रादेशिक खण्डों के नामों और विस्तार में कुछ परिवर्तन और उन राज्य के सम्बन्ध में परिसीमन आयोग के तारीख 1 जनवरी, 1975 के आदेश सं० 32 की सारणी ख में वर्णित कतिपय सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के वर्णन में अनवधानता से हुई भूल या चूक संसूचित की हैं;

और, निर्वाचन आयोग उन निर्वाचन-क्षेत्रों के वर्णन में संशोधन करना तथा उक्त आदेश को ठीक और अद्यतन करने के लिए अनवधानता से हुई भूल या चूक से परिणामित गलतियों को ठीक करना आवश्यक और समीचीन समझता है;

अतः, अब, परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग उक्त आदेश की सारणी ख में निम्नलिखित के अनुसार संशोधन करता है:—

- (i) स्वम्भ 2 के नीचे, '22-भोगापुरम' के सामने, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर "भीमनिपटनम तालुक में भोगापुर कोनाडा, कुमिलि और डेन्काना फिरके तथा टागरापुवालसा (फिरका) 46-टागरापुवालसा और 87-संगीवालसा ग्रामों को छोड़कर)।" प्रविष्टि रखी जाएगी;

- (ii) स्तम्भ 2 नीचे '23-भोमुनिपटनम' के सामने, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर "भोमुनिपटनम तालुक में टागरापुवालसा फिरका के 46-टागरापुवालसा और 87-संगीवालसा ग्रामों को सम्मिलित करते हुए भोमुनिपटनम नगरपालिका तथा भोमुनिपटनम, आनन्दपुरम, रेविडो तथा कोरुकेण्डा फिरके तथा संहंगवारापुकोटा तालुक में आलामंडा फिरका" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (iii) स्तम्भ 2 के नीचे '208-सनाथनगर' के सामने, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में आए हुए "हैदराबाद नगरीय तालुक में फतेहपुर सिकिल" शब्दों के स्थान पर "हैदराबाद नगरीय तालुक के अमीरपेट सिकिल में फतेहनगर टाउन" शब्द रखे जाएंगे;
- (iv) स्तम्भ 2 के नीचे, '211-सिकन्द्राबाद छावनी (अ०जा०) के सामने' निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर "हैदराबाद नगरीय तालुक में सिकन्द्राबाद छावनी तथा बोवेनपल्ली टाउन तथा अमीरपेट सिकिल में 14-किरोजगुडा ग्राम तथा साचाबोलाराम, लालगुडा, एवं मलकाजगिरि टाउन, और तिरुमलगिरि सिकिल ।" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (v) स्तम्भ 2 के नीचे '218-चारमीनार' के सामने, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर "हैदराबाद नगर निगम के हैदराबाद डिक्विजन के वार्ड सं० 19 से 21 तक तथा हैदराबाद नगरीय तालुक में बहादुरपुरा सिकिल के अट्टापुर, अलिसामंडार, बुमरकुंडीला, मैलारदेवपल्ली, पाल्लेचेर, लक्ष्मीगुडा और बालापुर ग्राम ।" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (vi) स्तम्भ 2 के नीचे '262-जनगांव' के सामने निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में, "148-गूलापल्ली" के स्थान पर, "148-गोलापल्ली" पढ़िए;
- (vii) स्तम्भ 2 के नीचे '267-वर्धप्रापेट' के सामने, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में "154-सिगनामपल्ली विधानगर" के स्थान पर "154-सिगाराम पट्टी विधानगर" पढ़िए; तथा
- (viii) उक्त आदेश के अंत में सारणी में, "1975 के जनवरी मास के प्रथम दिन" शब्द और अंकों के स्थान पर "1975 के अगस्त मास के प्रथम दिन" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

[सं० 282/1/आंध्र/75]

आदेश से,

बी० नागसुब्रमण्यन, सचिव ।

